



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 23 1977 आषाढ़ 2, 1899

No. 255]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 1977/ASADHA 2, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June 1977

**S.O. 408(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely —

1 (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Fourth Amendment Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958,—

(i) for clause (1A), the following clause shall be substituted, namely —

“(1-A) by the signature of Director, Section Officer (Special) or Desk Officer in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, or”

(ii) for clauses (3A) to (8), the following clauses shall be substituted, namely —

“(3-A) in the case of orders and other instruments relating to the Fertiliser Division of the Department of Agriculture, by the Deputy Commissioner (Part Operations and Projects) and Deputy Commissioner

(Movement) in the Fertiliser Division of that Department, and in the case of those relating to the Accounts wing of the Fertiliser Division of the Department of Agriculture, by the Deputy Director of Accounts in that Wing, or

- (3-B) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Defence by the Senior Accounts Officer in the Navy Wing of that Ministry; or
- (4) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Education, by the Joint Educational Adviser, Deputy Educational Adviser, Assistant Educational Adviser or a Deputy Director in that Department, or
- (5) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of External Affairs, by an Attache or Administrative Officer in that Ministry, or
- (6) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Economic Affairs, by a Controller or Deputy Controller of Capital Issues, Joint Director (Stock Exchange) or Joint Director (Accounts) or Senior Accounts Officer in that Department, or
- (7) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Expenditure, by a Finance Officer, Deputy Finance Officer or Deputy Assistant Financial Adviser in that Department, or
- (8) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Revenue and Banking, by a Deputy Director (Tax Credit Export) in that Department, or a Director in the Central Board of Excise and Customs or a Director in the Central Board of Direct Taxes, or"

(ii) for clauses (11) to (34), the following clauses shall be substituted, namely:—

- "(11) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Food, by the Chief Director of Purchase, Deputy Chief Director of Purchase, Assistant Chief Director of Purchase, Deputy Director General or a Deputy Director in that Department, and in the case of orders and other instruments relating to the Food and Nutrition Board Division in the Department of Food, by the Senior Analyst in that Division; or
- (12) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Irrigation, by the Deputy Director (Engineering) functioning as Branch Officer in the Joint Rivers Commission Wing in that Department; or
- (13) in the case of orders and other instruments relating to the office of the Chief Controller of Imports and Exports, by the Chief Controller of Imports and Exports, or
- (14) in the case of orders and other instruments relating to the Administrative Vigilance Unit in the Ministry of Work and Housing, by an Assistant Vigilance Officer in that Unit, and in the case of orders and other instruments relating to the Works Division and the Printing, Stationery and Publication Division of that Ministry, by a Section Officer in those Divisions, or
- (15) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Home Affairs, by a Deputy Director or a Deputy Financial Adviser, and in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat Security Organisation including Reception Wing, by the Chief Security Officer in that Ministry; or
- (16) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Industrial Development, by the Commissioner (Industrial Co-operatives) or the Deputy Director (Industrial Co-operatives), in that Department, or
- (17) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Power, by a Deputy Director (Power) or the Budget Officer in that Department, or

- (18) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Rehabilitation by the Joint Director or Finance and Budget Officer in that Department; or
- (19) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Labour, by the Joint Director Labour Relations or Assistant Director in the Labour Relations Division (National Commission on Labour Wing) in that Ministry; or
- (20) in the case of authoritative text in Hindi of any order, rule regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act, where such text is published in Section 3A of Part II of the Gazette of India, by an Additional Draftsman, a Deputy Draftsman, or an Assistant Draftsman, Official Language (Legislative) Commission, Legislative Department, Ministry of Law, or
- (21) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Railways, by a Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary or Under Secretary to, or by a Joint Director, Deputy Director or Assistant Director of, the Railway Board; or
- (22) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Steel, by the Deputy Director (Steel Control Wing), or
- (23) in the case of demand notices under clause 9 of the General Conditions of Contract as contained in form Con. 117 or under clauses 2(d) and (8) of the conditions of Auction Sales prescribed under Schedule III of the Auctioneering Contract requesting purchasers to pay to the Government any sum of money recoverable from or payable by purchasers on account of either loss on resale or for any other reason under a contract or sale entered into by the Directorate General of Supplies and Disposals, by a Director or a Deputy Director of supplies or a Deputy Director of Disposals, and in the case of demand notices for recovery or payment in terms of Arbitration Awards arising out of contracts and supply orders placed by the Directorate General of Supplies and Disposals for purchase and supply of stores and also in terms of court decrees arising out of such contracts and supply orders or otherwise, by a Director, Deputy Director or Assistant Director of Supplies; or
- (24) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Communications, by the Internal Financial Adviser, Deputy Wireless Adviser or Assistant Wireless Adviser in that Ministry; or
- (25) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Personnel and Administrative Reforms, by the Chief Welfare Officer in that Department, or
- (26) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Culture, by a Joint Educational Adviser, Deputy Educational Adviser, Assistant Educational Adviser or a Deputy Director in that Department, or in the case of orders and other instruments relating to the Gazetteers Unit of that Department by the Editor (Gazetteers), or
- (27) in the case of sanctions relating to the Department of Science and Technology, in respect of payment of grants to Scientific societies, by the Principal Scientific Officer in that Department, or
- (28) in the case of orders and other instruments relating to the President's Secretariat, by the Secretary to the President Military Secretary to the President Deputy Secretary to the President or Under Secretary, President's Secretariat, or
- (29) in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat of the Vice-President, by the Private Secretary or Assistant Private Secretary to the Vice-President, or
- (30) in the case of orders and other instruments relating to the Prime Minister's Secretariat, by the Secretary Joint Secretary or Private Secretary to the Prime Minister or the Director in that Secretariat, or
- (31) in the case of orders and other instruments relating to the Election Commission, by the Secretary in that Commission; or

- (32) in the case of orders and other instruments relating to the Union Public Service Commission, by the Secretary, Deputy Secretary-in-charge of Administration or Under Secretary-in-charge of Administration in the Office of that Commission, or
- (33) in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat of Rajya Sabha (Council of States) by its Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary or Under Secretary, or
- (34) in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat of the Lok Sabha (House of People) by its Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, or Under Secretary."

[No F. 23/7/76-Public]

P K KATHPALIA, Jt. Secy.

### गृह संत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1977

का०आ० 408 (अ) —राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) चतुर्थ संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 के नियम 2 में,—

(i) खंड (1क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् —

“(1क) भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में वर्णित मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों के निदेशक, अनुभाग अधिकारी (विशेष) या डेस्क अधिकारी के हस्ताक्षर से ; या

(ii) खंड 3क से 8 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“(3क) कृषि विभाग के उर्वरक प्रभाग में संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के उर्वरक प्रभाग में उपायुक्त (भाग संग्रहण और परियोजना) और उपायुक्त (संचलन) द्वारा, और कृषि विभाग के उर्वरक प्रभाग के लेखा पक्ष में संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में उस पक्ष के उपनिदेशक, लेखा द्वारा, या

(3ख) रक्षा मंत्रालय में संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय के सीमेन्टा पक्ष के ज्येष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा, या

(4) शिक्षा विभाग में संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के संयुक्त शिक्षा सलाहकार, उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार या उप निदेशक द्वारा, या

- (5) विदेश मन्त्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग में अताशे या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या
- (6) आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के नियंत्रक या उपनियंत्रक, व्यय पृष्ठी निगम, संयुक्त निदेशक (शेयर बाजार) या संयुक्त निदेशक (लेखा) या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा , या
- (7) व्यय विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी या उप सहायक वित्त सलाहकार द्वारा ; या
- (8) राजस्व और बैंकिंग विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के उप निदेशक (कर-प्रत्यक्ष नियंत्रण), या राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के निदेशक या राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के निदेशक द्वारा , या”
- (iii) खंड (11) से (34) तक के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे ; अर्थात् —
- “(11) खाद्य विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के मुख्य निदेशक, क्रय , उप मुख्य निदेशक, क्रय , सहायक मुख्य निदेशक, क्रय ; उपमहानिदेशक या उप निदेशक द्वारा, और खाद्य विभाग के खाद्य और पोषाहार बोर्ड प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस प्रभाग के ज्येष्ठ विश्लेषक द्वारा , या
- (12) मिर्चाई विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के संयुक्त नदी आयोग पक्ष में शाखा अधिकारी का कार्य करने वाले उपनिदेशक (इंजीनियरी) द्वारा , या
- (13) मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा ; या
- (14) निर्माण और आवास मन्त्रालय में प्रशासनिक सतर्कता एकक से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस एकक के सहायक सतर्कता अधिकारी द्वारा, और उस मन्त्रालय के निर्माण प्रभाग और मुद्रण लेखन सामग्री और प्रकाशन प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उन प्रभागों के अनुभाग अधिकारी द्वारा , या
- (15) गृह मन्त्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उप निदेशक या उप वित्त सलाहकार द्वारा, और सचिवालय सुरक्षा संगठन जिसमें स्वागत पक्ष भी सम्मिलित है, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस मन्त्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ; या

- (16) औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के आयुक्त (औद्योगिक सहकारिता) या उपनिदेशक (औद्योगिक सहकारिता) द्वारा ; या
- (17) विद्युत विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के उपनिदेशक (विद्युत) या बजट अधिकारी द्वारा ; या
- (18) पुनर्वासि विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के संयुक्त निदेशक वित्त और बजट अधिकारी द्वारा , या
- (19) श्रम मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (श्रम संबंध) या श्रम संबंध प्रभाग (श्रम पक्ष का राष्ट्रीय आयोग) के सहायक निदेशक द्वारा , या
- (20) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गये किसी आदेश, नियम, विनियम उप-विधि के प्राधिकृत हिन्दी पाठ के मामले में, जब ऐसा पाठ भारत के राजपत्र, भाग 2 के खण्ड 3क में प्रकाशित किया गया हो, विधि मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा (विधायी) आयोग के किसी अपर प्रारूपकार, उप-प्रारूपकार या सहायक प्रारूपकार द्वारा ; या
- (21) रेल मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, रेल बोर्ड के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवसर सचिव, या संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक, या सहायक निदेशक द्वारा ; या
- (22) इस्पात विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उप-नियंत्रक (इस्पात नियंत्रण पक्ष) द्वारा, या
- (23) प्ररूप सवि० 117 में यथा अन्तर्विष्ट सविदा की साधारण शर्तों के खण्ड 9 के अधीन या नीलाम सविदा की अनुसूची III के अधीन विहित नीलाम विक्रय शर्तों के खण्ड 2(घ) और (8) के अधीन माग सूचनाओं के मामले में, जिनसे पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई सविदा या विक्रय के, अधीन माल के पुन विक्रय पर या अन्य किसी कारण से हुई हानि मद्धे क्रेता से प्रत्युद्धरणीय या उस के द्वारा संदेय किसी धनराशि का सरकार को संदाय करने के लिये क्रेता से निवेदन किया गया हो, निदेशक या उपनिदेशक, पूर्ति, या उपनिदेशक, व्ययन, द्वारा, और सविदाओं, और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा भंडार के क्रय और पूर्ति के लिये दी गई सविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत माध्यस्थ पंचाटों के निबन्धनों के अनुसार और ऐसी सविदाओं और पूर्ति आदेशों से या अन्यथा उद्भूत न्यायालय की डिग्री के निबन्धनों के अनुसार प्रत्युद्धरण या संदाय के लिये माग सूचनाओं के मामले में, निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक, पूर्ति, द्वारा ; या
- (24) संचार मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस मंत्रालय के आन्तरिक वित्त सलाहकार, उप-बेतार-सलाहकार, सहायक बेतार-सलाहकार द्वारा ; या
- (25) कार्मिक और प्रशामनिक सुधार विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के मुख्य कल्याण अधिकारी द्वारा ; या

- (26) सम्स्कृति विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस विभाग के संयुक्त शिक्षा सलाहकार, उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार या उपनिदेशक द्वारा, या उस विभाग के गजेटियर एकक से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, सवादक (गजेटियर) द्वारा; या
- (27) वैज्ञानिक सोसाइटियों के अनुदान के सदाय की बाबत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मंजूरीयों के मामले में, उस विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा, या
- (28) राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सेना सचिव, राष्ट्रपति के उप सचिव या अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, द्वारा; या
- (29) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उपराष्ट्रपति के निजी सचिव या सहायक निजी सचिव द्वारा, या
- (30) प्रधान मंत्री सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में प्रधान मंत्री के सचिव, संयुक्त सचिव या निजी सचिव या उस सचिवालय के निदेशक द्वारा, या
- (31) निर्वाचन आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस आयोग के सचिव द्वारा, या
- (32) सच लोक सेवा आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उस आयोग के कार्यालय में सचिव, प्रशासन के भारसाधक उप सचिव या प्रशासन के भा माधक अवर सचिव द्वारा, या
- (33) राज्य सभा सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में, उसके सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव द्वारा, या
- (34) लोक सभा सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में उसके सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, या अवर सचिव द्वारा ।

[स० फा० 23 7/76 पब्लिक]

प्रेम कुमार कठपालिया, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

